

प्रेस विज्ञापन/PRESS RELEASE

10.07.2026

30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही हेतु वित्तीय परिणाम

 निवल लाभ ₹ 3,273 करोड़ +10.09% वर्ष-दर-वर्ष	 कुल कारोबार ₹ 15,29,201 +13.66% वर्ष-दर-वर्ष	 कुल जमा राशि ₹ 8,44,578 करोड़ +13.47% वर्ष-दर-वर्ष	 कुल अग्रिम ₹ 6,84,623 करोड़ +13.89% वर्ष-दर-वर्ष
--	---	---	---

कुल कारोबार में 13.66% की वृद्धि दर्ज की गई, जो व्यापक व्यावसायिक प्रगति दर्शाती है।

सकल अग्रिमों में 13.89% की वृद्धि हुई, जबकि सुदृढ़ कासा शेयर में 39.73% की वृद्धि के साथ जमा राशियों में 13.47% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

निवल लाभ में वर्ष-दर-वर्ष 10.09% की वृद्धि दर्ज की गई, जो दक्षता और सतत विकास को दर्शाती है।

डिजिटल लेन-देन की हिस्सेदारी वर्ष-दर-वर्ष 95% रही, जो बैंक के प्रौद्योगिकी-आधारित ग्राहक संबंध को रेखांकित करता है।

आस्ति गुणवत्ता मजबूत बनी रही, साथ ही जीएनपीए अनुपात घटकर 1.86% हो गया, जो निरंतर लाभप्रदता को बढ़ावा देता है।

प्रमुख विशेषताएं (जून 2025 के सापेक्ष जून 2026 को समाप्त तिमाही)

- **निवल लाभ** जून 2025 में ₹2973 करोड़ के सापेक्ष जून 2026 में **10.09%** वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ **₹3273** करोड़ रहा।
- **परिचालनगत लाभ** जून 2025 में ₹ 4770 करोड़ के सापेक्ष जून 2026 में **16.50%** वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि के साथ **₹ 5557** करोड़ रहा।
- **निवल ब्याज आय** जून 2025 में ₹6359 करोड़ के सापेक्ष जून 2026 में **16.92%** वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि के साथ **₹7435** करोड़ रही।
- **देशी निवल ब्याज मार्जिन(NIM)** जून 2025 के **3.35%** से बढ़कर जून 2026 में **3.41%** हो गया।
- **जमा राशि पर लागत अनुपात** जून 2026 में **98 बीपीएस** घटकर **44.80%** हो गया।
- **जमा राशि पर लागत(COD)** जून 2025 में **5.14%** के सापेक्ष जून 2026 में **34 बीपीएस** घटकर **4.80%** हो गई।
- **निधियों की लागत(COF)** जून 2025 में **5.23%** के सापेक्ष जून 2026 में **40 बीपीएस** घटकर **4.83%** हो गई।
- **निवेश पर प्रतिफल (YoI)** जून 2026 में **6.96%** रहा।
- **सकल अग्रिम** जून 2025 में ₹601147 करोड़ के सापेक्ष जून 2026 में **13.89%** वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि के साथ **₹684623** करोड़ रहा।
- **रैम (खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई) अग्रिम** जून 2025 में ₹363221 करोड़ के सापेक्ष जून 2026 में **14.80%** वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि के साथ **₹416992** करोड़ हो गया।
- **सकल घरेलू अग्रिमों में खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई (RAM)** का योगदान **66.00%** रहा। खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई में वर्ष-दर-वर्ष क्रमशः **18.74%, 9.96% एवं 17.03%** की वृद्धि हुई। गृह ऋण (बंधक सहित) में **13.36%** वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि हुई।
- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम** में **40%** की विनियामक अपेक्षाओं के सापेक्ष जून 2026 में एनबीसी के प्रतिशत के रूप में **45.36%** **₹236720** करोड़ की वृद्धि हुई।
- **कुल जमा राशि** जून 2025 में ₹44289 करोड़ के सापेक्ष जून 2026 में **13.47%** की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ **₹844578** करोड़ हो गई।

- **देशी कासा (CASA)** अनुपात जून 2025 के **38.97%** से बढ़कर जून 2026 में **39.73%** हो गया।
- **सीडी अनुपात** जून 2025 के **80.77%** के सापेक्ष बढ़कर जून 2026 में **81.06%** हो गया।
- **सकल अनर्जक आस्तियां** जून 2025 में **3.01%** के सापेक्ष वर्ष-दर-वर्ष **115 बीपीएस** घटकर जून 2026 में **1.86%** हो गई, एनएनपीए जून 2025 के **0.18%** से **3 बीपीएस** घटकर जून 2026 में **0.15%** हो गई।
- **प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर, टीडब्ल्यूओ सहित)** जून 2025 में **98.20%** के सापेक्ष जून 2026 में वर्ष-दर-वर्ष **2 बीपीएस** वृद्धि के साथ **98.22%** रहा।
- **स्लिपेज अनुपात** जून 2025 के **0.94%** की तुलना में घटकर जून 2026 में **0.77%** हो गया।
- **ऋण लागत** जून 2025 के **0.28%** से वर्ष-दर-वर्ष **05 बीपीएस** के सुधार के साथ जून 2026 में **0.23%** हो गई
- **पूंजी पर्याप्तता अनुपात** **17.58%** रहा। जून 2026 में सीईटी-1 **16.51%** और टियर-1 पूंजी **16.51%** रहा।

प्रमुख विशेषताएं (मार्च 2026 के सापेक्ष जून 2026 को समाप्त तिमाही)

- **निवल लाभ** मार्च 2026 के **₹3103 करोड़** से बढ़कर जून 2026 में **₹3273 करोड़** रहा।
- **देशी निवल ब्याज मार्जिन (NIM)** मार्च 2026 के **3.35%** से बढ़कर जून 2026 में **3.41%** हो गया।
- **जमा लागत (COD)** मार्च 2026 के **4.83%** से **3 बीपीएस** घटकर जून 2026 में **4.80 %** हो गई।
- **निधियों की लागत (COF)** मार्च 2026 के **4.88%** से **5 बीपीएस** घटकर जून 2026 में **4.83%** हो गई।
- **आस्तियों पर प्रतिलाभ (RoA)** मार्च 2026 के **1.28%** से **3 बीपीएस** बढ़कर जून 2026 में **1.31%** हो गई।
- **इक्विटी पर प्रतिलाभ (RoE)** मार्च 2026 के **18.98%** से **50 बीपीएस** बढ़कर जून 2026 में **19.48%** हो गई।
- **अग्रिमों पर प्रतिफल (YoA)** मार्च 2026 के **8.07%** से **2 बीपीएस** बढ़कर जून 2026 में **8.09%** हो गई।
- **ऋण लागत** मार्च 2026 के **0.47%** से **24 बीपीएस** बढ़कर तिमाही-दर-तिमाही जून 2026 में **0.23 %** हो गया।
- **लागत आय अनुपात** मार्च 2026 के **44.99%** से **19 बीपीएस** घटकर जून 2026 में **44.80%** हो गया।
- **प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)** मार्च 2026 के **₹92.15** से बढ़कर जून 2026 में **₹97.20** हो गई।
- **प्रति शेयर बही मूल्य मार्च 2026 के ₹487.23 से बढ़कर जून 2026 में ₹510.72 हो गई।**
- **सकल अनर्जक आस्तियां** मार्च 2026 के **1.98%** से तिमाही-दर-तिमाही **12 बीपीएस** घटकर जून 2026 में **1.86%** हो गई, एनएनपीए जून 2026 में **0.15%** बनी रही।

नेटवर्क

- बैंक की **6003** देशी शाखाएं (3 डीबीयू सहित) हैं जिनमें से **2011** ग्रामीण, **1606** अर्ध-शहरी, **1195** शहरी एवं **1191** महानगरीय शाखाएं हैं। बैंक की **3** विदेशी शाखाएं हैं एवं **1** आईबीयू (गिफ्ट सिटी शाखा) है।
- बैंक के पास **5676** एटीएम एवं बीएनए हैं और **17,314** बैंक मित्र (बीसी) हैं।

डिजिटल बैंकिंग

- वित्तीय वर्ष 27 की प्रथम तिमाही में डिजिटल चैनलों के माध्यम से **₹67,327 करोड़** का कारोबार हुआ है। अब तक कुल **158** डिजिटल जर्नी, उपयोगिताओं एवं प्रक्रियाओं का शुभारंभ किया गया है।
- मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या वर्ष-दर-वर्ष **22%** बढ़कर **2.48 करोड़** हो गई है।

- यूपीआई उपयोगकर्ताओं एवं नेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं में क्रमशः **21%** एवं **3%** की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि देखी गई है, जो क्रमशः **2.77** करोड़ और **1.19** करोड़ तक पहुँच गई हैं। फास्टैग एवं पीओएस उपयोगकर्ताओं की संख्या में क्रमशः **79%** एवं **40%** की वृद्धि दर्ज की गई।

पुरस्कार एवं प्रशस्तियाँ:

- फाइनेंशियल एक्सप्रेस द्वारा बैंक को "**बेस्ट पीएसबी अवॉर्ड 2024-25**" का विजेता घोषित किया गया।
- बैंक के एमडी एवं सीईओ को 'तमिलनाडु बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, 2025' में **'सीईओ ऑफ द ईयर'** पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- बैंक को वर्ष 2026 के लिए **"गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस"** का विजेता घोषित किया गया।
- बैंक को **"आईबी साथी"** के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्डन अवार्ड और **"सुरक्षा संबंधी परिचालनों"** के लिए सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ।
- इंडियन बैंक को **वित्तीय वर्ष 2026 में एपीवाई के लक्ष्य की 104% उपलब्धि के लिए 'एपीवाई एनुअल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस'** से सम्मानित किया गया है।
- बैंक को सिबिल द्वारा **"बेस्ट डेटा क्वालिटी अवॉर्ड"** से सम्मानित किया गया है।
- इंडियन बैंक को आईआईबीएफ द्वारा **"एक्सीलेंस इन क्रेडिट कैपेबिलिटी डेवलपमेंट"** के लिए सम्मानित किया गया है।

हमारा फोकस

हमारा उद्देश्य ग्राहकों की समस्त बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनका सर्वाधिक विश्वसनीय एवं पसंदीदा वित्तीय साझेदार बनना है। इस उद्देश्य हेतु हमारी रणनीति परिचालन दक्षता की सुदृढ़ता, अनुशासित पोर्टफोलियो प्रबंधन तथा अपने ग्राहकों को सरल, त्वरित एवं उत्कृष्ट बैंकिंग अनुभव प्रदान करने पर केंद्रित है। ग्राहक दृष्टिकोण हमारी कार्यसंस्कृति का मूल आधार है, जो ग्राहकों के साथ हमारे प्रत्येक संवाद तथा प्रत्येक नवाचार के लिए हमारा मार्गदर्शन करता है।
